



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 27, 1979/भाद्र 5, 1901

No. 176]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27, 1979/BHADRA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्तृत संश्लेष

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

सं० प्रतिप्रदायगी सां०सू० 5679

सार्वजनिक अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 27 अगस्त, 1978

फा०सं० 602/1/79-डी०बी०के० —सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार समय समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रमांक 2803 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपक्रमांक और प्रविष्टियां अन्तर्स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

उपक्रमांक	साल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
-----------	--------------	---------------------

2804 हस्तनिर्मित कालीन

(1) पूर्णतया पालिएस्टर फिलामेंट सूत से निर्मित	उपक्रमांक 2619 (क) (1) के सामने यथाविनिर्दिष्ट सूत अन्तर्वस्तु की दर, बसते उसमें निम्नलिखित अर्थ पूरी होती हो।
--	--

1

2

3

(2) पूर्णतया नायलोन फिला- उपक्रमांक 2619 (क) (ii) के सामने यथाविनिर्दिष्ट सूत अन्तर्वस्तु की दर बसते उसमें उल्लिखित अर्थ पूरी होती हो।

(3) नायलोन फिलामेंट और पालिएस्टर फिलामेंट के मिश्रित सूत से निर्मित उपक्रमांक 2619 (क) (1) तथा (ii) के सामने विनिर्दिष्ट सूत अन्तर्वस्तु की दर, बसते उसमें उल्लिखित अर्थ पूरी होती हो।

उपरोक्त वस्तुओं के संबंध में अलग अलग निर्माता/निर्मातृकर्मियों के सामने में नियत बाई दरें इस सार्वजनिक सूचना के प्रभाव में आते ही वापस ले ली गई समझी जाएगी।

सं० प्रतिप्रदायगी सां०सू० 57/79.—

फा०सं० 602/1/79-डी०बी०के० —सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सां०सू० 1 दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रमांक 2606 के अन्तर्गत वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह जब तक कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 19 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे सूती फैब्रिका के सम्बन्ध में, सूत अन्तर्वस्तु के

कारण कोई प्रतिप्रदायनी अनुमत्य नहीं होगी जिसमें 2503(क)(I)(i) और उपक्रमिक 2503 (क)(II)(i) में विनिर्दिष्ट सूत इस्तेमाल किये गये हों।”

महेश कुमार, सचिव सचिप

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(INDIRECT TAXES DIVISION)

New Delhi, the 27th August, 1979

No. DRAWBACK/PN-56/79.—

PUBLIC NOTICES

F.No. 602/1/79-DBK.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

After sub-serial No. 2803 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and entries shall be inserted, namely :—

Sub-sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
2804	Hand made Carpets—	
(i)	wholly made of polyester of filament yarn.	The rate of yarn content as specified against sub-serial No. 2619(A)(i) subject to the condition mentioned therein.

(ii) wholly made of nylon filament yarn. The rate of yarn content as specified against sub-serial No. 2619(A)(ii) subject to the conditions mentioned therein.

(iii) made of mixed yarn of nylon filament and polyester filament. The rate of yarn content as specified against sub-serial No. 2619(A)(i) and (ii) subject to the conditions mentioned therein.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

No. DRAWBACK/PN-57/79.—

F. No. 602/1/79-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

For the existing proviso under sub-serial No. 2606 the following Proviso shall be added, namely :—

“Provided that no drawback on account of yarn content shall be admissible in respect of Cotton fabrics falling under item 19 of the Central Excise Tariff, using yarns specified at sub-serial No. 2503(A)(I)(i) and sub-serial No. 2503(A) (II) (i).”

MAHESH KUMAR, Under Secy.